



| APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE<br>सहायता हेतु आवेदन प्रारूप                                                                                 |                                                                                               | (Healthcare)<br>(स्वास्थ्य देखभाल)                                                                                  |                                                                                           | <br><b>Koshika</b><br>foundation<br><small>Building block of life.</small>           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| APPLICATION No.: K/0710 / 0048<br>आवेदन संख्या:                                                                                              |                                                                                               | APPLICATION DATE: 10/07/19<br>आवेदन तिथि                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
| NAME of APPLICANT: JOGIMAYA MONDAL<br>आवेदक का नाम                                                                                           |                                                                                               | AGE-YEARS आयु-वर्ष<br>72                                                                                            | SEX लिंग<br>F                                                                             |   |  |
| FATHER'S/SPOUSE'S NAME: SATISH MONDAL<br>पिता/हस्ताक्षर का नाम                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
| PRESENT RESIDENCE ADDRESS वर्तमान आवास पता                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
| PART NO 23, UTTAR DUMDUM, NORTH 24<br>PARGANAS, WEST BENGAL                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
| PERMANENT RESIDENCE ADDRESS : स्थाई आवास पता                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
| — AS ABOVE —                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
| OCCUPATION :<br>उद्योग                                                                                                                       | HOME MAKER                                                                                    |                                                                                                                     | MARRIED (विवाहित) / UNMARRIED (अविवाहित)                                                  |                                                                                                                                                                         |  |
| TOTAL ANNUAL INCOME:<br>कुल वार्षिक आय                                                                                                       | RS 2300 x 12 = 27600/-                                                                        |                                                                                                                     | (Attach Proof of Income)<br>(आय का साक्ष्य संलग्न करें)                                   |                                                                                                                                                                         |  |
| PAN No. यहाँ खाली रखें                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
| ARE YOU AN INCOME TAX ASSESSEE (Tick whichever is applicable):<br>क्या आप आय कर दाता हैं (जो मान्य हो उस पर सही का निशान लगाएं)              |                                                                                               |                                                                                                                     | Yes / No<br>हां / नहीं                                                                    |                                                                                                                                                                         |  |
| <b>FAMILY DETAILS - परिवार विवरण</b>                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
| Sr. No.<br>क्रम संख्या                                                                                                                       | Name of Family Member<br>परिवार के सदस्यों का नाम                                             | Age (Years)<br>उम्र (वर्ष)                                                                                          | Gender<br>लिंग                                                                            | Relation with Applicant<br>आवेदक के साथ सम्बंध                                                                                                                          |  |
| 1.                                                                                                                                           | JOGIMAYA MONDAL                                                                               | 72                                                                                                                  | F                                                                                         | SELF                                                                                                                                                                    |  |
| 2.                                                                                                                                           | SATISH MONDAL                                                                                 | 68                                                                                                                  | M                                                                                         | SON                                                                                                                                                                     |  |
| 3.                                                                                                                                           | BISWAJIT MONDAL                                                                               | 40                                                                                                                  | M                                                                                         | SON                                                                                                                                                                     |  |
| 4.                                                                                                                                           | DIPALI ROY                                                                                    | 46                                                                                                                  | F                                                                                         | DAUGHTER                                                                                                                                                                |  |
| 5.                                                                                                                                           | SHABANA DAS                                                                                   | 43                                                                                                                  | F                                                                                         | DAUGHTER                                                                                                                                                                |  |
| 6.                                                                                                                                           | GOURI SARKAR                                                                                  | 33                                                                                                                  | F                                                                                         | DAUGHTER                                                                                                                                                                |  |
| <b>BASIS for REQUESTING ASSISTANCE (Tick whichever is applicable)</b><br>सहायता के लिए विनति आधार                                            |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
| BPL Card<br>(Attach Card Copy)<br>गरीबी रेषा के नीचे प्रमाण पत्र<br>(प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)                                  |                                                                                               | EWS Certificate<br>(Attach Certificate Copy)<br>अल्प आय वर्ग प्रमाण पत्र<br>(प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें) | Ration Card<br>(Attach Copy)<br>उपभोक्ता कार्ड<br>(प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें) | Any Other Basis/Proof<br>अन्य कोई साक्ष्य                                                                                                                               |  |
| <b>"PURPOSE" for REQUESTING ASSISTANCE:</b><br>सहायता हेतु किसे मने विनती का उद्देश्य:                                                       |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
| Sr. No.<br>क्रम संख्या                                                                                                                       | Medical Reports/Prescriptions Attached<br>अस्पताल/डॉक्टर से जारी की गई प्रविष्टित सूची संलग्न |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
| 1.                                                                                                                                           | DIAGNOSIS - CATARACT - LE                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
| 2.                                                                                                                                           | SURGERY - LE (SICS + IOL)                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
| <b>ASSISTANCE BEING AVAILED for SAME "PURPOSE" from OTHER SOURCES</b><br>इस उद्देश्य के हेतु कोई अन्य सहायता किसी अन्य स्रोत से लिया गया है? |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
| Sr. No.<br>क्रम संख्या                                                                                                                       | NAME of OTHER SOURCE<br>अन्य स्रोत का नाम                                                     |                                                                                                                     | AMOUNT of ASSISTANCE BEING AVAILED<br>ली गई सहायता राशी                                   |                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECLARATION by APPLICANT: आवेदक द्वारा घोषणा करें:</b><br>1) I hereby confirm that all details in this Form are True to the best of my knowledge. Any false statement will render my Application & ongoing assistance, if any, liable for rejection/cancellation.<br>2) I solemnly confirm that assistance, if received from Koshika Foundation, will be used only for the "purpose", as stated in this Form, for which such assistance was requested by me.<br>3) I hereby confirm that I have not & will not in future, avail of reimbursement, in part or in full, from any other source/employer/insurance company, of the amount for which this assistance is requested.<br>1) मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्रारूप में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं। यदि कोई विवरण एवं कथन असत्य पाया जाता है तो मेरी सहायता निरस्त की जा सकती है।<br>2) मैं दृढ़ता से सहायता प्राप्त "कोशिका फाउन्डेशन", से ही न चाहता हूँ, उसका उपयोग उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया जाएगा, जो इस प्रारूप में पत्र किया गया है।<br>3) मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने सहायता हेतु यह प्रार्थना की नहीं है, और यदि का अधिकतम या सकल हिस्सा किसी अन्य प्रतिष्ठान/रोजगार/बीमा कम्पनी से न तो लिया है और न ही भविष्य में लूँगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AGREEMENT by APPLICANT (आवेदक द्वारा करण)</b><br>1) By affixing my signature or thumb impression on this Form, I (Applicant) hereby agree & authorise Koshika Foundation and its Trustees to use/publish/put-up/reproduce my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, through any medium, including but not limited to verbal, print, electronic, for soliciting donations for Koshika Foundation and/or disseminating information about its activities/achievements. Such use of my photo & details can be made by Koshika Foundation before or after my treatment or fulfilment of the "purpose" for which assistance is being requested.<br>2) I (Applicant) further agree that any such use of my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, will not automatically entitle me for receiving or continuing the said assistance. The decision for granting and/or continuing the assistance will rest solely with the Trustees of Koshika Foundation, and their decision is this regard will be final and acceptable to me.<br>1) इस प्रारूप पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लगाकर, मैं (आवेदक) अपनी स्वीकृति को पुष्टि करता हूँ एवं "कोशिका फाउन्डेशन और उसके न्यासीयों" को अधिकृत करता हूँ कि मेरा नाम, पता, फोटो और जो विवरण इस प्रारूप में घोषित है, उसे "कोशिका" एवम् न्यासी, दूर, साधक/दूसरे उद्देश्य से जुड़ी गतिविधियों और उपलब्धियों के लिये किसी भी प्रकार माध्यम से प्रसारित करने के लिये अधिकृत है। मेरी प्रारूप का विवरण मेरे इलाक के पहले या बाद में करने के लिये "कोशिका फाउन्डेशन" में न्यासी अधिकृत है।<br>2) मैं (आवेदक) इस बात से सहमत हूँ कि मेरा नाम, पता, फोटो और विवरण जो कि सहायता के उद्देश्यों से प्रेषित है मुझे स्वतः सहायता का हक्कदार नहीं बनाता। इस सम्बंध में "कोशिका" एवम् उसके न्यासीयों का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>APPLICANT'S SIGNATURE OR LEFT THUMB IMPRESSION :</b><br>आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AGREEMENT by HOSPITAL (हस्पताल द्वारा करण)</b><br>By affixing hereunder, signature of our Authorised Signatory for recommending this case/patient for financial assistance from Koshika Foundation, we (Hospital) hereby affirm & accept following:<br>1) that we neither are presently nor will in future avail of financial assistance from another NGO or any other source, for the same patient/case, as we are requesting to get from Koshika Foundation, to the extent that such assistance is granted by Koshika Foundation. If the requested assistance is not granted by Koshika Foundation, in part or in full, then the Hospital reserves its right to make up the shortfall from another NGO or any other source. This confirmation essentially states that the Hospital will not avail any duplicate assistance for the same patient/case from any other NGO or any other source.<br>2) The assistance from Koshika Foundation is only financial in nature. The choice of the treatment/procedure advised/conducted by the Hospital on the patient, is based on the arrangement between the patient & the Hospital, and is in no way influenced by Koshika Foundation. Hence, the Hospital will assume sole & complete responsibility of the treatment & its outcome & safety of the patient, and Koshika Foundation will have no role or responsibility in the matter.<br>हमारे अधिकृत, हस्ताक्षर की ओर से यहाँ/लेखी को "कोशिका फाउन्डेशन" से वित्तीय सहायता हेतु सिफारिश की जाती है, जिसे हम (हस्पताल) निम्न प्रकार से मान्य व स्वीकार करते हैं।<br>1) यह कि न तो वर्तमान और न ही भविष्य में वित्तीय सहायता किसी और सारकारी संस्थान या किसी अन्य स्रोत से उक्त रोगी/रोगी में लेने या ले रहे हैं, जैसे कि हमने "कोशिका फाउन्डेशन" से सिफारिश/विनंति उक्त के सम्बंध में "कोशिका फाउन्डेशन" द्वारा मंजूर हेतु किया है। यदि "कोशिका फाउन्डेशन" द्वारा सहायता विनंति अस्वीकार/नकार हेतु मंजूर नहीं किया जाता है तो अस्पताल किसी अन्य और सारकारी संस्था या किसी अन्य सन्स्थान से सहायता लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस पुष्टि में स्पष्ट कहा जाता है कि अस्पताल द्वितीय मंजूर उक्त रोगी/रोगी हेतु किसी और सारकारी संस्था या किसी अन्य साधन से नहीं लेगा/लेगी।<br>2. "कोशिका फाउन्डेशन" से ही मैं सहायता कोष वित्तिय प्रकृति की है। रोगी पर हस्पताल द्वारा ही मैं सहायता या किये गये उपचार/प्रक्रिया का चुनाव लेने एवं हस्पताल को बीच का विषय है और "कोशिका फाउन्डेशन" द्वारा किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इसलिये हस्पताल में रोगी को इलाज शुरू और जाने जाने की सारी जिम्मेदारियाँ रोगी एवं हस्पताल की होगी और "कोशिका" की कोई भी भूमिका या जिम्मेदारियाँ इस मामले में नहीं होगी। |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE</b><br>स्वीकृति के लिए संस्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Date of Surgery</b><br>अंग्रेजों की तारीख<br>10/07/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dr. Alok Agrawal<br>MBBS, MS, PhD (EYE), FMRP, FSNCO<br>Retired - 68069<br>Susrut Eye Foundation & Research Centre<br>(Name of Dr. & Regn. No. with Stamp)<br>डाक्टर का नाम व हस्ताक्षर य एवं न. |
| Shikha Sagar Baghel<br>Director<br>Susrut Eye Foundation & Research Centre<br>(Name, Designation & Stamp of Authorised Signatory on behalf of Hospital)<br>नाम व पद हस्पताल अधिकृत अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FOR INTERNAL USE of KOSHIKA FOUNDATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SIGNATURE of TRUSTEE 1</b><br>न्यासी हस्ताक्षर 1<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SIGNATURE of TRUSTEE 2</b><br>न्यासी हस्ताक्षर 2<br>                                                      |